



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 14.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 14.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर० के० गौतम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 14.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## एण्टीरोमियो स्ववाड द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 14.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन- 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 14.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना कबरई पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 14.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० यज्ञनारायण भार्गव द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. मुन्ना लाल पुत्र श्री गंगाचरनउम्र करीब 57 वर्ष जो मु०न० 2000/09 धारा 323/504 भादवि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा से सम्बन्धित है, 2. शिवचरन उर्फ शिवा पुत्र रजवा कुशवाहा जो मु०न० 1051/2022 मु०न०.- 602503/2012 व अ०सं० 454/2012 धारा 25 ए एक्ट को बांदा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० यज्ञनारायण भार्गव थाना कबरई जनपद महोबा
2. का० अजीत कुमार यादव
3. का० दीपेन्द्र सिंह यादव

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मुन्ना लाल पुत्र श्री गंगाचरनउम्र करीब 57 वर्ष नि०मु० सुभाष नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा
2. शिवचरन उर्फ शिवा पुत्र रजवा कुशवाहा नि० मु० गाँधीनगर कस्बा व थाना कबरई महोबा







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 14.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।



आज दिनांक **14.09.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर०के० गौतम के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के

विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **35** वाहनों के ई-चालान किये गये।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 14.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस